

मानव पूँजी निर्माण (Human Capital Formation) :-

लोगों की शिक्षा, प्रशिक्षण, कुशलता विकास आदि पर किया जाने वाला खर्च जो मानव संसाधनों के रूप में उनकी उत्पादकता को बढ़ाता है।

$$W = f\left(\frac{NI}{\text{population}}\right)$$

या

NI स्थिर है तो-

$$W = f\left(\frac{1}{\text{population}}\right) \text{ or } \frac{NI \times 1}{\text{population}}$$

सामाजिक पूँजी (Social Capital) :-

लोगों के बीच में एकता जुड़ाव अन्तर्संबंध आदि को सोशल कैपिटल / सामाजिक पूँजी कहते हैं।

यह देखा गया है कि लोगों के बीच में भाषाई जुड़ाव एकता अन्तर्संबन्ध आदि से भी उत्पादकता बढ़ती है।

सतत/धारणीय विकास (Sustainable Development) :

संसाधनों के प्रयोग में अन्तर्पीढ़ी समता ।
Inter-generational equity in resource-use

वर्तमान Present भविष्य Future
पीढ़ी generation पीढ़ी generation

Resource use को लेकर

सन्दर्भ:-

Our Common Future (1987)

ब्रुन्डलैंड क्षमयोग की रिपोर्ट (1983)

ग्रीन जी.डी.पी (Green GDP) :

जी.डी.पी का मौद्रिक
मूल्य

जीडीपी को उत्पादित
करने के क्रम में
पर्यावरण को पहुँची
क्षति का अनुमानित
मूल्य

नोट 1:-

भारत में पहली बार 2009 में तत्कालीन
पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश के द्वारा ग्रीन
GDP को लागू करने के लिए कहा गया था,
हालांकि अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है

Let the G of GDP
be called as green

GINH - Gross National Happiness "Essay - 2013"

सकल राष्ट्रीय खुशहाल


भूटान के नरेश
के द्वारा इस अवधारणा को दिया गया। यह
निम्न चार स्तंभों पर आधारित है

- (i) सतत विकास।
- (ii) पर्यावरण की सुरक्षा/संरक्षण।
- (iii) सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाना।
- (iv) सुशासन।

Environmental Kuznets Curve

(UPPCS, PT)

प्रदूषण और आर्थिक विकास (PCI) के माध्यम
से) में सम्बन्ध बताता है



Net zero Carbon :-

$$\text{CO}_2 \text{ का उत्सर्जन} - \text{CO}_2 \text{ का अवशोषण} = 0$$

Carbon Tax

CO₂ का उत्सर्जन करने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक कर। यह कर मुख्य रूप से (fossil fuels) जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के उपभोग या उत्पादन पर लगाया जाता है।

भारत में कार्बन टैक्स :-

भारतीय सर्वेक्षण 2014-15 के अनुसार भारत में कार्बन कर के नाम से कोई Explicit (स्पष्ट) कर नहीं लगाया जाता है लेकिन निम्न दो करों को निहित कार्बन कर (Implicit Carbon tax) माना जा सकता है:-

- (i) Central Excise Duty on Petrol & diesel
- (ii) State Sales Tax / VAT on Petrol & Diesel